

प्रेस नोट थाना गगहा दिनांक 13-11-2021

गैर इरादतन हत्या का एक नफर वान्छित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के दिशानिर्देश में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व सहायक पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक बांसगाव के कुशल मार्ग निर्देशन व अमित कुमार दूबे प्रभारी निरीक्षक गगहा के नेतृत्व में उ०नि० मो० गुफरान का० अभिनेष यादव के चौकी गजपुर से रवाना होकर घटनास्थल पर ग्राम बासुडीहा पहुंचा दौराने विवेचना मुखबीर द्वार सूचना मिली की अभियुक्त अभय सिंह गजपुर मार्केट से सियर तिराहा की तरफ गया है इस सूचना पर अभियुक्त के पुत्र को साथ लेकर मै उ०नि० मय हमराही का० उपरोक्त के सियर तिराहा पहुंचा तो एक व्यक्ति सियर तिराहे पर ही खड़ा दिखायी दिया जिसकी तरफ ईशारा करके अभियुक्त के पुत्र ने बताया कि यही मेरे पिता है हम पुलिस वाले जब उसकी तरफ बढे तो भागना चाहा कि हिकमत अमली से तिराहे पर ही पकड़ लिया गया भागने का कारण पूछा गया तो मांफी मागते हुये बताने लगा की शराब के नशे में कल रात को मैने अपनी माता जी को बुरी तरह से मारा पीटा था जिससे उनकी मृत्यु हो गयी है इसीलिए पुलिस से बचने के लिए भाग रहा था कारण गिरफ्तारी बताकर अन्तर्गत धारा 304 भादवि० समय करीब 13.00 बजे बकायदा हिरासत पुलिस में लिया गया। जिसे जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

अभय कुमार सिंह पुत्र स्व० रतनसेन सिंह निवासी बासुडीहा थाना गगहा जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु०अ०स० 390/2021 धारा 304 भादवि थाना गगहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान व समय –

सियर तिराहे के पास दिनांक 13.11.21 समय 13.00 बजे सुबह

गिरफ्तारी करने वाले अधि०/कर्मचारी-

- (1) उ०नि० श्री मो० गुफरान चौकी प्रभारी गजपुर थाना गगहा जनपद गोरखपुर
- (2) का० अभिनेश यादव थाना गगहा जनपद गोरखपुर